



(Formerly known as Meenakshi Enterprises Limited)
A NBFC listed at Bombay Stock Exchange

CIN: L51102TZ1982PLC029253

Regd Office: Shop No 3, 1st Floor, Adhi Vinayaga Complex,
No 3 Bus stand, Gopalsamy Temple Street, Ganapathy,
Coimbatore, Tamil Nadu, India-641006
Email: investor@jmjfintechltd.com
Mob:7395922291/92

August 29, 2025

To,
BSE Limited
Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Security Code: 538834

Security ID: JMJFIN

ISIN: - INE242Q01016

Sub.: Submission of Post-Issue Advertisement with respect to the Rights Issue of JMJ Fintech Limited (the "Company") in accordance with Regulation 92 of the SEBI ICDR Regulations and Regulation 30 of SEBI LODR Regulations, as amended.

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject, this is to inform you that the post-issue advertisement dated August 28, 2025, in terms of regulation 92(1) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, pertaining to the basis of allotment of the Rights Issue of equity shares of the Company has been published in the following newspaper on August 29, 2025:

1. Financial Express– (English) National daily – All Editions
2. Jansatta– (Hindi) National Daily – All Editions
3. Makkai Kurai– (Tamil) – Coimbatore Edition

We are submitting herewith the newspaper clippings of the above-mentioned newspapers.

Kindly take the same on your records and acknowledge the receipt.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For, JMJ Fintech Limited

Vidya Damodaran
Company Secretary and compliance officer
Membership no. A 69509



Encl. as Above



SUYOG GURBAXANI FUNICULAR ROPEWAYS LIMITED

CIN: L45203MH2010PLC200005
 Registered Office: 18, Suyog Industrial Estate, 1st Floor, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai- 400063
 Tel No.022- 25795516/ 25778029 | Email Id: investor@sgrfl.com | Website: www.sgrfl.com

NOTICE OF THE 16TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE is hereby given that the 16th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 23, 2025 at 11.30 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business set out in the Notice of the AGM.

The AGM will be held through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on conducting AGM through VC/OAVM from time to time. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the circulars issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM together with the Annual Report will be sent to the Members electronically to the e-mail IDs registered by them with the Depository Participant/the Company.

The Notice of the 16th AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 will also be available on the Company's website i.e. www.sgrfl.com, the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com on which the equity shares of the Company are listed and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

1. Procedure to be followed by those Members whose e-mail IDs are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail IDs for e-Voting for the resolutions set out in AGM notice:

a) In case shares are held in physical mode, if any, please provide folio no., name of Member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card) and AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email at the Company's e-mail id i.e. investor@sgrfl.com/ RTA's email id i.e. einward.ris@klintech.com.

b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested copy) and AADHAR (self-attested copy) by email at the Company's e-mail id i.e. investor@sgrfl.com/ RTA's email id i.e. einward.ris@klintech.com.

c) Alternatively, Members may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be.

2. Manner of casting vote through e-Voting:

a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote e-Voting facility at the AGM.

b) In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, e-Voting process will also be enabled for all individual demat account holders, by way of single login credentials, through their demat accounts/ websites of NSDL and/or Central Depository Services (India) Limited or Depository Participant(s).

c) Instructions on the process of remote e-Voting and e-Voting at the AGM is provided as part of the Notice of the 16th AGM.

d) Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-Voting will be able to vote electronically at the AGM.

e) Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM or at www.evoting.nsdl.com. The detailed procedure for attending the AGM through VC/ OAVM is explained in the Notice of the AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM (being sent electronically) and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-Voting or through e-Voting facility at the AGM.

Members are requested to contact their Depository Participants and register their email addresses and bank account details in their demat accounts as per the process of their respective Depository Participants.

By the Order of Board of Directors
 For Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways Limited
 Sd/-
 Ameya Bodas
 Company Secretary & Compliance Officer

Date: August 28, 2025
 Place: Mumbai



Aeronautical Development Agency (Ministry of Defence, Govt. of India)

PB No. 1718, Vimanapura Post, Bangalore-560017

CORRIGENDUM-2

Eol for Development of Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA)

ADA/AMCA/FSED/EOI/01-2025 Date: 28th Aug 2025

Eol No.	Brief Description	Existing Due Date and Time	Revised Due Date and Time
ADA/AMCA/FSED/EOI/01-2025, dated 18 th June 2025	Eol for Development of Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA)	31 st August 2025, 5:00 PM	30 th September 2025, 5:00 PM

Response to be submitted in hardcopy only, either to be deposited in the tender box at ADA or to be sent by Speed Post only to address below. The responses received after the due date & time will be treated as late submission and will not be considered.

Director (Materials Management) Aeronautical Development Agency, P.B. No. 1718, Vimanapura Post, Bangalore - 560017.



JMJ FINTECH LIMITED

Our Company was originally formed as public limited in the name and style of "Meenakshi Enterprises Limited" under the provisions of companies act, 1956 pursuant to certificate of incorporation issued by Registrar of Companies, Tamil Nadu on 27th November, 1982. Thereafter, our Company was granted the certificate of commencement of business dated December 17, 1982. Subsequently, our company amended the object clause in its Memorandum of Association to diversify into leasing machinery, equipment, and travel agency services. Thereafter our company has obtained Non-deposit taking NBFC certificate, issued by RBI on 09th March, 1998. Subsequently pursuant to Special Resolution passed by way of postal ballot dated July 16, 2022, the name of our company was changed to "JMj Fintech Limited" vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated August 10, 2022 issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu. Thereafter our company has changed its Registered Office from Chennai to Coimbatore, Tamil Nadu vide ROC, Coimbatore order dated August 23, 2023. The equity shares of our company were got listed on BSE Limited on December 17, 2014 bearing CIN - L51102TZ1982PLC029253, scrip code - 538834 and ISIN - INE242Q1016. For details of our Company, please see the chapter titled "General Information" beginning on page 49.

Registered Office : Shop No. 3, 1st Floor, Adhi Vinayaga Complex, No. 3, Bus Stand, Gopalsamy Temple Street Ganapathy, Coimbatore, Ganapathy, Coimbatore, Coimbatore North, Tamil Nadu, India, 641006

Telephone : 7395922291; E-mail : investor@jmjfinchitd.com

Contact Person : Mrs. Vidya Damodaran, Company Secretary and Compliance Officer

E-mail : investor@jmjfinchitd.com; Website : www.jmjfinchitd.com

Corporate Identification Number : L51102TZ1982PLC029253

OUR PROMOTER : JOHNY M L

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF JMj FINTECH LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY

ISSUE OF UPTO 2,56,00,000 PARTLY PAID-UPEQUITYSHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10.50/- EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 0.50/- PERRIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT UPTO ₹ 2688.00 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF TWORIGHTS EQUITY SHARESFOR EVERYONE FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JULY 11, 2025 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1.05 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THECHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 127 OF THIS LETTER OF OFFER. *Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Right Equity Shares.

PAYMENT SCHEDULE			
AMOUNT PAYABLE PER RIGHT EQUITY*	FACE VALUE (₹)	PREMIUM (₹)	TOTAL
On Application	3.00	0.15	3.15
On One or more subsequent Call(s) as determined by our Board at its sole discretion, from time to time	7.00	0.35	7.35
Total	10.00	0.50	10.50

* For further details on Payment Schedule, see "Terms of the Issue" on page 127.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of JMj Fintech Limited wishes to thank all its Equity Shareholders and investors for the response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Friday, July 18, 2025 and closed on Thursday, August 14, 2025 and the last date for on-market renunciation of Rights Entitlements was Monday, August 11, 2025.

Out of the total 2663 Applications for 41658914 Rights Equity Shares, 685 Applications for 1449579 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 1978 for 40209335 Rights Equity Shares, which was 157.07% of the number of Rights Equity Shares allotted under the issue and 296 applications for renunciation for 1755858 equity shares. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on Wednesday, August 20, 2025 in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange and the Registrar to the Issue, the Company has, on Thursday 21, 2025, approved the allotment of 2,56,00,000 fully paid-up Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after technical rejections have been considered for Allotment.

1. The breakup of valid applications received (after technical rejections) is given below :

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)
	Number	Number	Number	Number
Shareholders	1687	13363148	10488556	23851704
Renounees	291	1748296	0	1748296
Total	1978	15111444	10488556	25600000

2. Information regarding total Applications received :

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for		Equity Shares Allotted			
	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Shareholders	1723	84.70%	35546535	111971585.25	85.33%	23851704	75132867.6	93.17%
Renounees	296	11.12%	5257337	16580611.55	12.62%	1748296	5507132.4	6.83%
Not an eligible equity shareholders of the company	644	24.18%	855042	2693382.30	2.05%	0.00	0.00	0.00
Totals	2663	100%	41658914	131225579.10	100%	25600000	80640000	100%

Intimations for Allotment / refund / rejection cases : The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the Investors, as applicable, has been completed on August 26, 2025. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications were issued to SCSBs on August 21, 2025. The listing application has been filed with BSE on August 21, 2025. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form will be completed on, August 28, 2025. For further details, see "Terms of the Issue" on page 101 of the Letter of Offer. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Rights Equity Shares allotted in the issue are expected to commence trading BSE on or about Monday, September 01, 2025. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference-SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements will be sent to NSDL and CDSL on August 25, 2025.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALISATION FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI : The Draft Letter of Offer had not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of the issue is less than Rs. 50 Crores. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures" on page 95 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE) : It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY CONTACT DETAILS
 PURVA SHARE REGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED Shakthi Industrial Estate, Ground Floor, J.R. Boricha Marg, Opp. Kasthurba Hospital, Lower Parel, Mumbai - 400011 Telephone : +91 022 41343264 E-mail : newissue@purvashare.com Website : www.purvashare.com Investor Grievance E-mail : newissue@purvashare.com Contact Person : Ms. Deepali Dhuri SEBI Registration Number : INR000001112 CIN : U67120MH1993PTC074079	 JMJ FINTECH LIMITED Registered Office : Shop No. 3, 1st Floor, Adhi Vinayaga Complex, No. 3, Bus Stand, Gopalsamy Temple Street, Ganapathy, Coimbatore, Ganapathy, Coimbatore North, Tamil Nadu, India, 641006 Telephone : 7395922291 E-mail : investor@jmjfinchitd.com Contact Person : Mrs. Vidya Damodaran, Company Secretary and Compliance Officer E-mail : investor@jmjfinchitd.com Website : www.jmjfinchitd.com Corporate Identification Number : L51102TZ1982PLC029253

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue / post-issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA.

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

Note : All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Letter of Offer.

For JMj FINTECH LIMITED
 Sd/-
 Vidya Damodaran
 Company Secretary and Compliance Officer

Date : 28.08.2025
 Place : Coimbatore

Disclaimer : Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE. The Letter of Offer is available on the website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 20 of the Letter of Offer. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.



Notice to Shareholders

A. Notice of the 24th Annual General Meeting and E-voting Information

The 24th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Balmer Lawrie Investments Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 23rd September 2025 at 04:00 PM at Ghanshyam Das Birla Sabhagar, 23, Ashutosh Choudhary Avenue, Kolkata - 700 019.

The Notice of the 24th AGM (including e-voting instructions, Attendance Slip, Proxy Form and Route Map of the venue of AGM) and Annual Report for the Financial Year 2024-25 has been sent on Thursday, 28th August, 2025 to the shareholders holding the shares of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, 15th August 2025 (end of day), through electronic mode to the Members whose e-mail addresses were registered with the Company/Depository Participant(s) and through permitted mode to the Members who have not registered their e-mail address with the Company/Depository Participant(s). Pursuant to Regulation 36(1)(b) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations"), a letter providing the web - link, including the exact path, where the complete details of the Annual Report of the Company for the FY 2024-25 is available, were sent to the Shareholders, whose e-mail id was not registered with the Company/Depository Participant(s).

The Notice and the Annual Report are also available on the website of the Company at www.blinv.com, on the website of the Stock Exchange, where the Equity Shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (Agency for providing the e-voting facility) on https://www.evotingindia.com

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Listing Regulations and other applicable provisions, if any, the Company is providing to its members the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at 24th AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely using the electronic voting system of CDSL on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available during the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. The detailed instructions regarding attending AGM, remote e-voting and e-voting during the AGM is provided in the notice of the AGM.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting: Friday, 19th September 2025 at 09:00 AM

End of remote e-voting: Monday, 22nd September 2025 at 05:00 PM

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by CDSL upon expiry of the aforesaid period. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Tuesday, 16th September 2025 (end of day), may cast their vote electronically.

A Member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, 16th September 2025 (end of day) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.

The Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system provided during the AGM as per the instructions contained in the aforesaid notice of the AGM.

The Members of the Company who hold shares in physical form and have not registered their e-mail address with the Company are requested to submit requisite ISR Forms along with supporting documents to M/s. CB Management Services Private Limited, Registrar & Share Transfer Agent ("RTA"), through the modes described in the Notice of AGM. Members may contact M/s. CB Management Services Private Limited, Rasoi Court, 5th floor, 20, Sir R N Mukherjee Road, Kolkata - 700001, e-mail - rta@cbmsl.com, phone no. - 033 6906 6200.

Members holding shares in demat form may contact their respective Depository Participants for registration of e-mail ids and other details.

A member may participate in the 24th AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

Any person, who acquired shares and become a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on cut-off date i.e. Tuesday, 16th September 2025 (end of day) may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if the shareholder who is already registered with NSDL or CDSL, may kindly follow the instructions for remote e-voting/e-voting stated in the Notice.

Contact details: If you have any query or issue regarding e-voting from the CDSL e-Voting System, you can write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Maratal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

Shri Navin Kohari, Proprietor of M/s. N. K & Associates, Practicing Company Secretaries, (Membership No. FCS 5935 and Certificate of Practice No. 3725) has been appointed to act as a scrutinizer for the e-voting process to ensure that the same is conducted in a fair and transparent manner.

Upon declaration of Dividend at the AGM, the same shall be paid to those shareholders who would be holding shares of the Company as on the record date i.e., Tuesday, 16th September 2025 (end of day), within the statutory time limit of 30 days from the date of such declaration.

Further in terms of Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/PI/CIR/2025/91 dated 23rd June, 2025 the shareholders who are holding physical shares and have not yet updated their PAN and KYC details with the Company, are requested to note that with effect from 1st April, 2024, the payment of Dividend in respect of such folio shall be made through electronic mode only upon furnishing of the PAN and KYCs for their corresponding folio numbers. Hence, they are requested to make application to the Company/RTA with duly filled requisite forms and documents as prescribed in the said Master Circular. The relevant Forms are also available in the website of the Company at https://www.blinv.com/admin/uploads/Point_1.pdf and on the website of M/s. C B Management Services Private Limited, RTA at https://cbmsl.com/services/details/sebi-download-forms-for-kyc.

B. 100 Days Campaign, "Saksham Niveshak" from 28th July 2025 to 6th November 2025 for KYC, Bank mandates and other related updations and shareholder outreach to prevent Transfer of Unpaid/Unclaimed dividends/shares to IEPF

This has reference to Circular bearing reference no. - Computer No.284174 & E-file no. 30/06/2025-IEPFA dated 16th July 2025 issued by Investor Education and Protection Fund Authority, Ministry of Corporate Affairs, Government of India regarding 100 Days Campaign - "Saksham Niveshak".

In furtherance to the aforesaid Circular, the Company is also playing its humble part. Thereby, focusing on the Shareholders of the Company, whose dividends have remained unclaimed.

The shareholders may note that this campaign has been started specifically to reach out to the shareholders to update their KYC, Bank mandates, contact information, etc.

The time period of the campaign cycle - 28th July 2025 to 6th November 2025.

In this regard, all the shareholders are encouraged to:

- Immediately update their KYC, Bank Mandates, Contact information and other details in their Folio/Demat account and
- Claim dividends from Financial Year 2017-18 onwards to prevent the transfer of the unclaimed dividend and equity shares to Investor Education and Protection Fund Authority.

All the Shareholders of the Company, who are holding shares in physical mode are requested to download the form(s) from the below mentioned weblink and the contact RTA at the aforementioned address:

https://www.blinv.com/admin/uploads/Point_1.pdf

Further, the Shareholders of the Company, who are holding shares in dematerialized mode are requested to contact their respective Depository Participant (DP) to update their KYC details.

The requisite intimation along with the relevant Circular dated 16th July 2025 is also available on the website of the Company at the following link:

https://www.blinv.com/admin/uploads/BLIWebsitesaksham.pdf

C. Intimation for Special Window (from 7th July 2025 to 6th January 2026) for re-logging of transfer requests of physical shares

This has reference to Circular bearing reference no. - SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/PI/CIR/2025/97 dated 2nd July 2025 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") regarding opening of a special window for re-logging of transfer requests of physical shares.

The requisite intimation is also available on the website of the Company at the following link:

https://www.blinv.com/admin/uploads/BLIWebsitespecialwindow.pdf

In furtherance to the aforesaid Circular, a special window only for giving opportunity to investors for re-logging of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of 1st April 2019 and rejected/rejected/attended to, due to deficiency in the documents/process/otherwise had been made available from 7th July 2025 and will be available till 6th January 2026. Kindly note that no re-logging request will be accepted after the said date.

The transfer request of physical shares with prescribed documents can be re-logged with M/s. C B Management Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company within the permitted time period.

During this period, the securities that are re-logged for transfer shall be issued only in demat mode subject to compliance with due process for such transfer-cum-demat requests.

In connection with serial B and C above, Members are requested to contact the RTA at the below mentioned Address for lodging their requests: CB Management Services Private Limited, Rasoi Court, 5th floor, 20, Sir R N Mukherjee Road, Kolkata - 700001, e-mail-rta@cbmsl.com, Phone no. - 033 6906 6200.

We strongly encourage all shareholders to take advantage of the aforementioned opportunities.

For Balmer Lawrie Investments Limited

Date: 29th August 2025

Abhishek Lahoti
 Company Secretary
 A25141

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

INDEL MONEY Corporate office: Indel Money Limited, 11th Floor Indel House, Changampuzha Nagar, South Kalanassery, Ernakulam-682033, Ph: 0484-2933999 E:customercare@indelmoney.com

GOLD AUCTION NOTICE

विशेष रूप से गिरी रखने वाली और आम जनता को सुविधा दिया जा रहा है कि नीचे दिए गए खातों में गिरी रखे गए स्वर्ण आभूषणों की सर्वजनिक नीलामी 15-09-2025 को प्रातः 11:00 बजे निम्नलिखित शाखाओं में आयोजित की जाएगी। इस उप सूचनाओं द्वारा को स्वर्ण आभूषणों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने निम्न संचार माध्यम से सूचित किए जाने के बाद सूचित अर्थात् ऋण राशि का मुआवजा नहीं किया है। नीलामी न की गई सूचनाओं की नीलामी स्वयं या विधि में किसी भी परिवर्तन की सूचना दिए बिना किसी अन्य दिन की जाएगी और उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के संशोधित शाखाओं में प्रदर्शित किया जाएगा।

कथपल - 33903860001004, 33904900001089, **किपारी** - 33404900000259, 0409/00572, 0409/00576, 0409/00581, **पुलकाल** - 34004700000653, 34004900000544, 0409/00656, 0409/00664, 0409/00728, **वालायप कलरी** - 33104700000453, 0407/00455, 0407/00499, 0407/00502, **विष्णु गलिन** - 35404900000181, **नरकनाथ** - 36104070000003, 0407/00005, 0407/00011, **बादपुर** - 40104070000019, 0407/00036, 0407/00039, 40104900000052, 0409/00072, 0409/00091, **मधुर विहार** - 35004900000237, 0409/00242, **भौल** - 33204900000483, 0409/00499, 0409/00527, **इगामी गेट** - 32203860000569, 32204070000538, 0407/00577, 0407/00579, 32204090000554, **इटासी** - 321040700000848, 32104900000788, **काला नगर** - 34804070001317, 0407/01384, 0407/01472, **मंडीवनी** - 35204900000467, 35204900000436, **मल्लिकार्जुन** - 323040700000847, 0407/00862, 0407/00870, 0407/00931, **महोद** - 324040700000472, 0407/00484, **सागर** - 359049000000404, **सयसेन** - 35804900000711, **पणनाबाद** - 338049000000705, 0409/00727, 0409/00758, 0409/00769, यदि इन निम्नलिखित विधि पर शाखा में नीलामी पूरी नहीं कर पाये हैं, तो यह भीचम ऑटोमैल इंडिया लिमिटेड (SAMIL) के माध्यम से उनके ऑनलाइन ई-नीलामी प्लेटफॉर्म <https://gold.samil.in> पर या ई-प्रोक्चोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Auction Tiger) के माध्यम से उनके ऑनलाइन ई-नीलामी प्लेटफॉर्म <https://gold.auctiontiger.net> पर 17-09-2025 को दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यदि ई-नीलामी 17-09-2025 को पूर्ण नहीं होती है, तो उसे अगले कार्यदिन में उन्हीं नियमों और शर्तों पर पुनः नीलाम किया जाएगा।

प्रारंभिक अधिकारी द्वारा इंग्रेज नवी लिमिटेड

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated July 12, 2025 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE").

jmj Fintech Ltd.

JMJ FINTECH LIMITED

Our Company was originally formed as public limited in the name and style of "Meevakshi Enterprises Limited" under the provisions of companies act, 1956 pursuant to certificate of incorporation issued by Registrar of Companies, Tamil Nadu on 27th November, 1982. Thereafter, our Company was granted the certificate of commencement of business dated December 14, 1982. Subsequently, our company amended the object clause in its Memorandum of Association to diversify into leasing machinery, equipment, and travel agency services. Thereafter our company has obtained Non-deposit taking NBFC certificate, issued by RBI on 09th March, 1998. Subsequently pursuant to Special Resolution passed by way of postal ballot dated July 16, 2022, the name of our company was changed to "JMj Fintech Limited" vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated August 10, 2022 issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu. Thereafter our company has changed its Registered Office from Chennai to Coimbatore, Tamil Nadu vide ROC. Coimbatore order dated August 23, 2023. The equity shares of our company were got listed on BSE Limited on December 17, 2014 bearing CIN - L51102Z12982PLC029253, scrip code - 538834 and ISIN - INE242Q01016. For details of our Company, please see the chapter titled "General Information" beginning on page 49.

Registered Office: Shop No. 3, 1st Floor, Adhi Vinayaga Complex, No. 3, Bus Stand, Gopalsamy Temple Street Ganapathy, Coimbatore, Ganapathy, Coimbatore North, Tamil Nadu, India, 641006
Telephone: 7395922291; **E-mail:** investor@jmjfinetech.com
Contact Person: Mrs. Vidya Damodaran, Company Secretary and Compliance Officer
E-mail: investor@jmjfinetech.com; **Website:** www.jmjfinetech.com
Corporate Identification Number: L51102Z12982PLC029253

OUR PROMOTER : JOHNY M L

FOR PRIVATE CIRCULAR TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF JMj FINTECH LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY

ISSUE OF UPTO 2,56,00,000 PARTLY PAID-EQUITYSHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10.50/- EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 0.50/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT UPTO ₹ 2688.00 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF TWO RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERYONE FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JULY 11, 2025 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1.05 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING PAGE 127 OF THIS LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Right Equity Shares.

PAYMENT SCHEDULE			
AMOUNT PAYABLE PER RIGHT EQUITY*	FACE VALUE (₹)	PREMIUM (₹)	TOTAL
On Application	3.00	0.15	3.15
On One or more subsequent Call(s) as determined by our Board at its sole discretion, from time to time	7.00	0.35	7.35
Total	10.00	0.50	10.50

*For further details on Payment Schedule, see "Terms of the Issue" on page 127.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of JMj Fintech Limited wishes to thank all its Equity Shareholders and investors for the response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Friday, July 18, 2025 and closed on Thursday, August 14, 2025 and the last date for on-market renunciation of Rights Entitlements was Monday, August 11, 2025.

Out of the total 2663 Applications for 41658914 Rights Equity Shares, 685 Applications for 1449579 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 1978 for 40209335 Rights Equity Shares, which was 157.07% of the number of Rights Equity Shares allotted under the issue and 296 applications for renunciation for 1758588 equity shares. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on Wednesday, August 20, 2025 in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange and the Registrar to the Issue, the Company has, on Thursday 21, 2025, approved the allotment of 2,56,00,000 fully paid-up Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after technical rejections have been considered for Allotment.

1. The breakup of valid applications received (after technical rejections) is given below:

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Shareholders	1687	13363148	10488556	23851704
Renounees	291	1748296	0	1748296
Total	1978	15111444	10488556	25600000

2. Information regarding total Applications received:

Category	Applications Received			Equity Shares Applied for			Equity Shares Allotted		
	Number	%	Value (Rs.)	Number	%	Value (Rs.)	Number	%	Value (Rs.)
Shareholders	1723	64.70%	35646535	111971585.25	85.33%	23851704	75132867.6	93.17%	
Renounees	296	11.12%	5257337	16560611.55	12.62%	1748296	5507132.4	6.83%	
Not an eligible equity shareholders of the company	644	24.18%	855042	2693382.30	2.05%	0.00	0.00	0.00	
Total	2663	100%	41658914	131225579.10	100%	25600000	80640000	100%	

Intimations for Allotment / refund / rejection cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the Investors, as applicable, has been completed on August 26, 2025. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications were issued to SCSSBs on August 21, 2025. The listing application has been filed with BSE on August 21, 2025. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form will be completed on, August 28, 2025. For further details, see "Terms of the Issue" on page 101 of the Letter of Offer. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Rights Equity Shares allotted in the issue are expected to commence trading BSE on or about Monday, September 01, 2025. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference-SEBI/HO/CFD/DIL/2/CIR/20/203 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements will be sent to NSDL and CDSL on August 25, 2025.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: The Draft Letter of Offer had not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of the issue is less than Rs. 50 Crores. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures" on page 95 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY CONTACT DETAILS
<p>PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED Shakthi Industrial Estate, Ground Floor, J.R. Boricha Marg, Opp. Kasthuba Hospital, Lower Parel, Mumbai - 400011 Telephone: +91 022 41343264 E-mail: newissue@purvashare.com Website: www.purvashare.com Investor Grievance E-mail: newissue@purvashare.com Contact Person: Ms. Deepali Dhuri SEBI Registration Number: INR000001112 CIN: U67120M11993PT0074079</p>	<p>JMJ FINTECH LIMITED Registered Office: Shop No. 3, 1st Floor, Adhi Vinayaga Complex, No. 3, Bus Stand, Gopalsamy Temple Street, Ganapathy, Coimbatore, Ganapathy, Coimbatore North, Tamil Nadu, India, 641006 Telephone: 7395922291 E-mail: investor@jmjfinetech.com Contact Person: Mrs. Vidya Damodaran, Company Secretary and Compliance Officer E-mail: investor@jmjfinetech.com Website: www.jmjfinetech.com Corporate Identification Number: L51102Z12982PLC029253</p>

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue / post-issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSSB where the CAF or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA.

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

Note: All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Letter of Offer.

For JMj FINTECH LIMITED Sd/-

Date: 28.08.2025
Place: Coimbatore
Vidya Damodaran
Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE. The Letter of Offer is available on the website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 20 of the Letter of Offer. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

एयू स्मॉल फाईनेस बैंक लिमिटेड (ए शूटप्लूड कर्पोरेशन बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, पुलवेयर गार्डन, अन्नमरी रोड, मय्याप-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिवुवॉल्टिजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मान्य सूचना पत्र

अधोस्तराहक एयू स्मॉल फाईनेस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं। निम्नलिखित प्राधिकृत अधिकारी एवं पुरानियत तथा प्रतिष्ठित हित का प्रदर्शन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के पर निम्नलिखित आदिवासी (एन.पी.टी.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणियों/सह-ऋणियों/ गारंटर/सहगारंटरों (जिन्हें आगे एन.पी.टी./ऋणियों के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है) को 60 दिनों के नोटिफिकेशन विधि में, नोटिफिकेशन अनुसार यदि ऋणियों/सह-ऋणियों के भीतर सन्तुष्ट ऋण राशि जमा नहीं करवाते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक ऋणियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कानून उल्लंघन हेतु स्वतंत्र होंगे। जिसमें अन्वयता के साथ-साथ उपरि उल्लिखित आदिवासी का कानून लेने की शक्ति तथा उनका विचार करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणियों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई ऋणियों का ऋण राशि भविष्य के काल तथा खाते पर लागू होने वाले ऋणों के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणियों को यह सूचित किया जाता है कि उपरि उल्लिखित 13(14) में निहित सूचना की प्राप्ति के परन्तु प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण विवरण प्राप्त होने के पश्चात् सूचना में निहित अन्वयता किसी भी प्रकार आदिवासी को विचार करने या उन्हें ऋण अन्वयता किसी भी प्रकार से अन्वयता नहीं करेगा। ऋणियों का ऋण जमा और आदिवासी विचार प्राप्त है कि इन अधिनियम की धारा 13 (2) अन्तर्गत धारा 13 (2) अधिनियम (अन्वयता) अधिनियम 2002 के अनुसार ऋणियों अन्वयता के उल्लंघन द्वारा उपरि उल्लिखित ऋणियों प्रवर्तकों और व्यक्तियों के सहित प्रभियोग लेनदार द्वारा विचार या अन्वयता के विषये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय पुरानियत करके मुक्त कराया जा सके है।

ऋण खातों संख्या / ऋणियों/सहऋणियों/ गारंटरों/गारंटर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिफिकेशन की दिनांक व राशि	बैंकक सम्पत्ति का विवरण
(खाता सं.) L9001060120452922 मैसर्स सविताक एयू प्रोपर्टी डेवेलपर्स (ऋणियों), राजगीर (सह-ऋणियों), श्रीमती सोमा (सह-ऋणियों)	03 जुलाई 2025 ₹ 1,007,485/- रु. दस लाख सात हजार बार सौ पचासी मात्र दिनांक 27 जून 2025	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 1806 का हिस्सा, गांव- बहदाहाजपुर, परगना लोनी, तहसील व जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर
(खाता सं.) L9001060123758126 श्रीमती मंगी देवी (सह-ऋणियों) व स्व. श्री रमेश सिंह (ऋणियों के विधिक उत्तराधिकारी), श्रीमती शशि (ऋणियों), अन्वयता व श्री रमेश सिंह (ऋणियों के विधिक उत्तराधिकारी), अन्वयता (स्व. श्री रमेश सिंह - ऋणियों के विधिक उत्तराधिकारी), सारन (स्व. श्री रमेश सिंह - ऋणियों के विधिक उत्तराधिकारी), रौनक (स्व. श्री रमेश सिंह - ऋणियों के विधिक उत्तराधिकारी)	03 जुलाई 2025 ₹ 319,480/- रु. तीन लाख उनीस हजार बार सौ अस्सी मात्र दिनांक 01 जुलाई 2025	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड- नगरपालिका सीमा में 60 व शहरी मती नं. 2 जेके नं.0028 नं.क के पार्स, खसरा नं. 363, वंदा नगर विहाण्ड पंच गाजियाबाद लोनी, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 25 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060131589348 श्रीमती एम.ए. देवी (सह-ऋणियों) व स्व. श्री सुरेश कुमार शर्मा (ऋणियों के विधिक उत्तराधिकारी), आकाश कुमार (ऋणियों) श्री सुरेश कुमार शर्मा (ऋणियों के विधिक उत्तराधिकारी)	03 जुलाई 2025 ₹ 193,1307/- रु. उनीस लाख इकतीस हजार सौ बीस सात मात्र दिनांक 01 जुलाई 2025	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 442/2, तहसील- दादरी, जिला- गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 73.57 वर्ग मीटर

स्थान: दिल्ली दिनांक: 28-08-2025 प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाईनेस बैंक लिमिटेड

MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN: L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W-4/638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Taluk - Mangaluru, India

नीलामी सूचना

निकेतन निस्वीकृतियों और सामान्य रूप में जनता को उत्तरदायक सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए धन के आभूषणों की सर्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 18.09.2025 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा, एवं ऐसे निम्नलिखित शाखाओं के धन के आभूषणों की नीलामी करने का यह है कि निम्नलिखित रजिस्ट्रार पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने धन की रकम नहीं चुकाई है, किन्तु आपत्तियों की नीलामी नहीं हो पायी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन किया पुनः सूचना दी जायेगी। नीलामी की सूचना न देविधि (अनुर कोर्टों में) पर परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जायेगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जायेगी।

निम्नलिखित सूची में:

दिल्ली, भोलेनाथ नगर दिल्ली, 121570700016734, 6787, 121570730011858, 1911, 1938, डारका सेक्टर 7, 113760700015905, 113760700016984, 7044, 7134, मीना कॉलोनी, 107590700030372, 107590730013804, 4300, 4403, 4469, 4509, 4517, कनकनवाड़ी, 102760700001516, 1027607000108371, 8440, 8441, 8442, 8444, 8445, 8446, 8483, 8492, 8493, 9514, कलकावाड़ी, 1008707000081314, 1322, 10087070003407542, 7633, क्रिष्ण नगर, 108530730051030, 1819, लक्ष्मी नगर, 100890700072180, 2479, 2548, 2671, 2821, 8786, 100890730037634, 7649, 7664, 7904, 7905, 9729, गंगालपुर, 1090407000060821, 4632, 109040700033097, 4026, 4027, तानिका, 108270700018457, 108270730022820, 8927, 8956, 8957, 9099, सोनिया, 1009007000202306, 0307, 1009007300211307, 1668, शालीमार नगर, 1027807000021697, 1785, 1789, 1795, 1823, 1824, 1846, 102780730019096, 9473, 9475, 9522, 9524, 9598, 9603, 9654, शांति नगर, 1084507000031103, 1084507300200459, 9315, 9347, 9349, 9356, 9357, 9404, 9421, 9426, 9428, 9427, 9438 नगर दिल्ली, 123330700032353, 2380, 2395, 123330730021364, 1389, 1421, 1431, 123330780000235, 997, दिल्ली, मन्तपुर दिल्ली, 122040700073131, 122040730025886, 6039, दिलवादा कॉलोनी, 120330700048569, 8179, 9024, 120330700062722, 2814, 120330730019537, 9768, 9799, 9852, दिलवादा नगर, 122030700027462, 9539, 9979, 122030730015168, 5396, 5415, 5422, 5558, 5559, 5568, सुभाषी बाक दिल्ली, 118870700044282, 4658, 4667, 118870730034913, 4914, 4915, 4956, 4977, 5291, गुरु अमर नगर, 1099807000023960, 109980730014769, 6097, 6139, 6135, 6137, 6165, 6236, जलमती दिल्ली, 120840700013016, 120840730009120, 9144, मुराद विहार नगर, 104630700045103, 104630730027735, 8137, 8259, 8434, 8438, 8456, 8606, 8730, 8799, 8864, 8934, मुराद विहार फेज 3, 116240700051215, 2274, 116240730031879, 1979, 1883, 1906, मीनपुर दिल्ली, 122690700038293, 9449, 9517, 122690730018352, 8390, नई दिल्ली, 108760700019936, 9939, 108660730018499, 991, 9428, 112000700019349, 9397, 1120007000203663, 112000730038455, 8630, 8724, 8779, गोविन्दपुरी, 121560700039233, 1121507300311400, 1453, 1483, लक्ष्मी नगर, 108520700016228, रुना फेज, 111200730019384, जन्मपुरी डी ब्लॉक, 108470700042826, 108470730056233, 8299, कालिकावा, 100850700045928, 6009, 6231, 100850730027765, 100850780000076, मालवी एम्प्लेस, 109760700005842, 5930, 5938, 109760730005375, 5841, 5859, 5916, मालवी नगर, 114910700020114, 0130, 114910730025318, नरकनाथ, 1088107000024009, 4010, 108810730028529, 8556, 8585, नानोली मांके, 108580730031697, 1974, 108580730025348, 5401, 5454, 5565, 5683, 5749, नूना लिम से, 108870700017376, 108870730033068, 3099, 3157, 3154, 3208, 3254, 3256, 3328, ओडर कॉलेज नगर, 110450700013338, 3362, 110450730017393, पार्लियर सेक्टर कालिकावा, 108920730043564, 3571, 3731, 3737, 3752, 108920730031528, 1565, 1622, 1623, 1625, 1645, 1662, 1670, 1700, 1701, 1089207800000087, महाद्वारा, 108730700500911, 1063, 1087307300005160, 108730730032634, 2746, 2752, पालम कॉलोनी, 107760700022056, 107760730036623, 7159, 7305, 7342, 7343, गिरगाडी, 1086407000032205, सुखी नगर, 123410700052970, 3054, 3254, 123410730032255, 2705, 2824, 2876, राजपुरी, 109680700031629, 1905, 1975, 1096807300206585, 1443, 1463, 1491, 1576, 1644, स्वयं नगर दिल्ली, 123420700010804, ललित नगर, 1008760700039513, 1008760730061421, 1588, 1728, सुलकाबाद एस्टेट नरकनाथ, 11110700053281, 3712, 3714, उत्तर नगर, 1076307000404265, 4276, 4320, 4335, 107630730060313, 1009, 1171, 107630700010289, सुखी दिल्ली, पोरवाग दिल्ली, 124540700015054, 5726, 6244, 6245, 6251, 124540730020844, 1068, क्रिष्ण जैदीदी नगर, 107870700022734, 2950, 2865, 2940, 2941, 107870780000061, 0062, महिंद नगर, 1090107000204690, 4717, 4771, सोनिया सेक्टर 3, 108670700020479, 109670730031825, सुभाषी नगर दिल्ली, 126870700018355, 8516, 8519, 8664, 126870730043667, 3765, 3908, उत्तरवर्ग दिल्ली, नि नगर दिल्ली, 121360700024064, 121360730031613, 1805, 1806, 1824, 1805, 1908, 1923, 1929, 1931, पश्चिम दिल्ली, मन्तपुर नगर, 107680700002565, 107680730028930, 9394, 9488, 9711, वसंत कुला, 107800700029920, 107800700030074, 0088, 0101, 107800730040378, 0380, 0782, 0798, 0808, पश्चिम दिल्ली, शांकरा पुरम दिल्ली, 1237307300045810, इंदरपुरी, 111720700020776, 1117207300442928, 1032, 3077, 3105, वैशाली नगर दिल्ली, 1287107300303030, 0064, 0158, 0325, 0326, विष्णुपुर दिल्ली, 123267070010789, विष्णु गार्डन, 1113207000222270, उपरलिखित नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित का पालन करना होगा:- इच्छुक भौतिककर्ताओं को ई-मेल की राय में रु. 10,000/- नीलामी के दिन नगद धन करना होगा (असमर्थ भौतिककर्ताओं को बाद में लोन दिया जाएगा), भौतिककर्ता को बैंक प्रथम प्राथम

